



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 वैशाख 1933 (श0)
(सं0 पटना 170) पटना, बुधवार, 4 मई 2011

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

23 फरवरी 2011

सं0 सं0का0-1/वि0प0 (सचे0 सत्ता0दल)-05-08/2010-332—बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 12/प0 4005/2011 सा0प्र0 2128, दिनांक 21 फरवरी 2011 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिसूचित वरीय उप समाहर्ता, मधुबनी, श्री राजेश कुमार, कोटि क्रमांक-1070/08 नालंदा को श्री नीरज कुमार, सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद् पटना के आप्त सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के आलोक में श्री राजेश कुमार को श्री नीरज कुमार, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद के आप्त सचिव के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) बिहार, पटना के 1169, दिनांक 02 मार्च 2001 के द्वारा निर्गत अनुदेश के अनुरूप इस विभाग द्वारा अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात योगदान की तिथि से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. श्री राजेश कुमार, आप्त सचिव के पद पर तब तक बने रहेंगे, जबतक श्री नीरज कुमार, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद में अपने पद पर बने रहेंगे। इस बीच भी आप्त सचिव के रूप में इसकी सेवा बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। सेवा समाप्ति के पश्चात् श्री कुमार अपने पैतृक विभाग में सेवा को स्वतः वापस मानते हुए योगदान करेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
नवनीत रंजन तिवारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी—सह—उप—सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 170-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>